



1. Union Culture Minister G. Kishan Reddy inaugurated Jyotirgamaya - a festival showcasing the talent of unsung performers in New Delhi.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में अनसंग कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया।

2. International Music Day or World Music Day is annually observed on 21 June.

अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस या विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है

3. The theme for the World Music Day 2022 is "Music on the intersections".

विश्व संगीत दिवस 2022 का विषय "चौराहों पर संगीत" है।

4. Indian-American scientist Dr Arti Prabhakar has been nominated by Joe Biden as a top science advisor.

भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ आरती प्रभाकर को जो बाइडेन ने शीर्ष विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किया है

5. Former Jharkhand Governor Draupadi Murmu has BJP-led NDA candidate for the Presidential polls.

झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की उम्मीदवार हैं।

6. 26th Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) 2022 will held in (Kigali) Rwanda.

26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) 2022 (किगाली) रवांडा में आयोजित की जाएगी

7. The theme of the summit is - Delivering a Common Future: Connecting, Innovating, Transforming.

शिखर सम्मेलन का विषय है - एकसामान्य भविष्य प्रदान करना: कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग

8. Foreign Minister Dr. S Jaishankar will lead the Indian delegation to the Commonwealth Heads of Government Meeting.

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

9. In the Indian Coast Guard, a new air squadron create in Chennai by the name 840 Squadron.

भारतीय तटरक्षक बल में, चेन्नई में 840 स्क्वाड्रन नाम से एक नया एय रस्क्वाड्रन बनाया गया है

10. Union Culture Minister G. Kishan Reddy inaugurated Jyotirgamaya in New Delhi.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया।